



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 66]
No. 66]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 9, 1978/माघ 20, 1899
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 9, 1978/MAGHA 20, 1899

इस भाग से भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1978

का. आ. 83(अ)/18ए/आई डी आर ए/78.—केंद्रीय सरकार का, उस कानून के आधार पर, जो उसके कब्जे में है, यह समाधान हो गया है कि मेसर्स प्रभुराम मिल्स, चेंगन्नूर, केरल नामक औद्योगिक उपक्रम तीन मास से अधिक की अवधि के लिए बंद कर दिया गया है और इस प्रकार की बंदी संबंधित अनुसूचित उद्योग अर्थात् सूती वस्त्र उद्योग के हित के प्रतिकूल है और उक्त औद्योगिक उपक्रम की स्वामी कंपनी की वित्तीय दशा तथा ऐसे उपक्रम के रायत्र और मशीनरी की दशा ऐसी है कि उपक्रम का पुनः चालू करना समझ में तथा उसका इस प्रकार से चालू किया जाना लोकहित में आवश्यक है।

अतः अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 85) की धारा 18क की उपधारा (1) के खंड (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, केरल स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड को (जिसे इसमें इसकी पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) उक्त समस्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध निम्नलिखित शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्—

(1) प्राधिकृत व्यक्ति, केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी निर्देशों का पालन करेगा।

(2) प्राधिकृत व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।

(3) केंद्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो, प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति के उक्त अवधि से पूर्व पर्यवसित कर सकती है।

2. यह आदेश, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होकर पांच वर्ष की अवधि तक, प्रभावी रहेगा।

[फा. सं. 3(18)/77-सीयूसी]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 9th February, 1978

S.O. 83(E)/18AA/IDRA/78.—Whereas the Central Government is satisfied from the documentary evidence in its possession that the industrial undertaking known as Messrs Prabhuram Mills Limited, Chengannur, Kerala, has been closed for a period exceeding three months and such closure is prejudicial to the concerned scheduled industry, namely, cotton textile industry, and that the financial condition of the company owning the industrial undertaking and the condition of the plant and machinery of the industrial undertaking are such that it is possible to re-start the undertaking and such re-starting is necessary in the interests of the general public;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951),

the Central Government hereby authorises the Kerala State Textile Corporation Limited (hereinafter referred to as the authorised person) to take over the management of the whole of the said industrial undertaking, subject to the following terms and conditions, namely :—

- (1) The authorised person shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government.
- (2) The authorised person shall hold office for a period of five years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.
- (3) The Central Government may terminate the appointment of the authorised person earlier, if it considers it necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. 3(18)/77-CUC]

का. आ. 84(अ)/18ए/आई डी आर ए/78.—केन्द्रीय सरकार का, उस दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर, जो उसके कब्जे में है, यह समाधान हो गया है कि मेसर्स मलबार स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, कालीकट, केरल नामक औद्योगिक उपक्रम तीन मास से अधिक की अवधि के लिए बंद कर दिया गया है और इस प्रकार की बंदी संबंधित अनुसूचक उद्योग अर्थात् सूती वस्त्र उद्योग के हित के प्रतिकूल है और उक्त औद्योगिक उपक्रम की स्वामी कंपनी की वित्तीय दशा तथा ऐसे उपक्रम के संयंत्र और मशीनरी की दशा ऐसी है कि उपक्रम का पुनः चालू करना संभव है तथा उरका इस प्रकार से चालू किया जाना लोकोहित में आवश्यक है ;

अतः अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 85) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केरल स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड को (जिसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है), उक्त समस्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध निम्नलिखित शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्

- (1) प्राधिकृत व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी निर्देशों का पालन करेगा ।

(2) प्राधिकृत व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा ।

(3) केन्द्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो, प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति को उक्त अवधि से पूर्व पर्यवसित कर सकती है ।

2. यह आदेश, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होकर पांच वर्ष की अवधि तक, प्रभावी रहेगा ।

[फा. सं. 3(19)/77-सीयूसी]

जो. वी. रामकृष्ण, अपर सचिव

S.O. 84(E)/18AA/IDRA/78.—Whereas the Central Government is satisfied from the documentary evidence in its possession that the industrial undertaking known as Messrs Malabar Spinning and Weaving Mills Limited, Calicut, Kerala, has been closed for a period exceeding three months and such closure is prejudicial to the concerned scheduled industry, namely, cotton textile industry, and that the financial condition of the company owning the industrial undertaking and the condition of the plant and machinery of the industrial undertaking are such that it is possible to re-start the undertaking and such restarting is necessary in the interests of the general public ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby authorises the Kerala State Textile Corporation Limited (hereinafter referred to as the authorised person) to take over the management of the whole of the said industrial undertaking, subject to the following terms and conditions, namely :—

- (1) The authorised person shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government.
- (2) The authorised person shall hold office for a period of five years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.
- (3) The Central Government may terminate the appointment of the authorised person earlier, if it considers it necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. 3(19)/77-CUC]

G. V. RAMAKRISHNA, Additional Secy.